

186



::आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर और उत्पाद शुल्क::
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), CENTRAL GST & EXCISE.



द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan,

रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,

राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142

Email: cexappealsrajkot@gmail.com

रजिस्टर्ड डाक ए. डी. द्वारा :-

क अपील / फाइल संख्या /
Appeal / File No.
V2/53/BVR/2017

मूल आदेश सं /
O.I.O. No.
R/96/2016

दिनांक /
Date
14.02.2017

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

BHV-EXCUS-000-APP-092-2017-18

आदेश का दिनांक /
Date of Order: 18.01.2018

जारी करने की तारीख /
Date of issue: 23.01.2018

Passed by **Shri Suresh Nandanwar, Commissioner, Central Goods Service Tax (Audit), Ahmedabad.**

अधिसूचना संख्या २६/२०१७-के.उ.शु. (एन.टी.) दिनांक १७.१०.२०१७ के साथ पढ़े बोर्ड ऑफिस आदेश सं. ०५/२०१७-एस.टी. दिनांक १६.११.२०१७ के अनुसरण में, श्री सुरेश नंदनवार, आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (लेखा परीक्षा), अहमदाबाद को वित्त अधिनियम १९९४ की धारा ८५, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम १९४४ की धारा ३५ के अंतर्गत दर्ज की गई अपील के सन्दर्भ में आदेश पारित करने के उद्देश्य से अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है.

In pursuance to Board's Notification No. 26/2017-C.Ex.(NT) dated 17.10.2017 read with Board's Order No. 05/2017-ST dated 16.11.2017, Shri Suresh Nandanwar, Commissioner, Central Goods Service Tax (Audit), Ahmedabad has been appointed as Appellate Authority for the purpose of passing orders in respect of appeals filed under Section 35 of Central Excise Act, 1944 and Section 85 of the Finance Act, 1994.

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: /
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise / Service Tax, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

घ **अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता / Name & Address of the Appellants & Respondent :-**
M/s Ultra Tech Cement Ltd., P. O. Kovaya, Tal . Rajula Dist : Amreli 365 541

इस आदेश(अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है। /
Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर. के. पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए। /
The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपील के अलावा शेष सभी अपीलें सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, , द्वितीय तल, बहुमाली भवन असावा अहमदाबाद- 380016 को की जानी चाहिए। /

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

- (iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

- (B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमावली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.

- (i) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमावली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियों संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी।

The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

- (ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टैट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है

- धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
- सेनवैट जमा की ली गई गलत राशि
- सेनवैट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्जी एवं अपील को लागू नहीं होगा।

For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores.

Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :

- amount determined under Section 11 D;
- amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(C) भारत सरकार को पुनरीक्षण आवेदन :

Revision application to Government of India:

इस आदेश की पुनरीक्षण याचिका निम्नलिखित मामले में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथम परंतुक के अंतर्गत अवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन इकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, ससद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। /

A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

- (i) यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में। /
In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse
- (ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। /
In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of an excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
- (iii) यदि उत्पाद शुल्क का भगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। /
In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.
- (iv) सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (नं. 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में पारित किए गए हैं। /
Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
- (v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। /
The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.
- (vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए।
जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- का भगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000 -/ का भगतान किया जाए।
The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.
- (D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पेटी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केंद्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.
- (E) यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-1 के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। /
One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs. 6.50 as prescribed under Schedule-1 in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.
- (F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। /
Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

183

BRIEF FACT OF THE CASE:

M/s. Ultratech Cement Limited, P.O.Kovaya, Tal.Rajula, Dist.Amerli (hereinafter referred to as 'the appellant') has filed the appeal on 14.03.2017 against Order-in-Original No. R/96/2016 dated 14.02.2017 (hereafter referred to as "the impugned order") passed by the Assistant Commissioner, Service Tax Division, Bhavnagar (hereinafter referred to as 'the adjudicating authority').

The facts of the case are that the appellant are engaged in the manufacturing of cement classifiable under Chapter 25 of the first schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985. The appellant also exports the same and are holding Central Excise and Service Tax Registration. The appellant had filed a refund claim of Rs.6 67,766/- under Notification No.41/2012-ST dated 29.06.2012 (hereafter referred to as "the said Notification") on 22.07.2014 along with the relevant documents for refund of Service Tax paid on services received by them during the period from April-2014 to June-2014 towards export goods. The refund claim was partly sanctioned for the amount of Rs.4,06,351/- and rejected the refund amount of Rs.2,61,412/- vide OIO No. R/49/2014 dated 14.11.2014 on the ground that conditions laid down under para 1(c) the said notification were not fulfilled in respect of 4 shipping bills. Being aggrieved with the said order, the appellant preferred appeal before Commissioner(Appeals), Central Excise, Rajkot who vide Order-in-Appeal No. BHV-EXCUS-000-APP-024-15-16 dated 31.07.2015 remanded the case back to the adjudicating authority with observation (i) that the pleadings of the appellant regarding consideration of entire quarter and not to consider each and every shipping bill, their claim for eligibility of rebate under para 2 of the said notification, etc. have not been considered/discussed in the impugned order, and (ii) as to how and why the claim in respect of 4 shipping bills was not filed before the proper authority as laid down under the said notification.

Consequent to the OIA dated 31.07.2015, the Show Cause Notice dated 21.09.2015 was issued to the appellant as to why the refund claim of Rs.2,61,412/- in respect of shipping bill Nos.2322543,2694897,2948480 & 3216842 should not be rejected as the same is not in conformity with condition laid down under para 1(c) of the said Notification and also in light of the Circular 988/12/2014-CX dated 20.10.2014 and Circular No.999/6/2015-CX.dated 28.02.2015. The adjudicating authority vide OIO No.R/42/2015 dated 05.11.2015 again rejected the refund claim of Rs.2,61,412/- on the ground that (i) services were utilized beyond the place of removal by relying upon CBEC Circulars as referred above and (ii) conditions laid down under para 1(c) of the said notification were not fulfilled in respect of the above mentioned shipping bills. Appeal against said OIO dated 05.11.2015 was decided vide OIA No. BHV-EXCUS-000-APP-213-15-16 dated 29.11.2016 with following observations:

"I allow the appeal in light of clause 160 of the Finance Act, 2016 so far as issue of place of removal is concerned and I reject the appeal as regards fulfillment of condition under para 1(c) of said notification."

Thus, I find that under above OIA, refund was held allowable on the issue of "Place of Removal". However, the same was not held permissible for sanction on the ground of non fulfillment of condition of para 1(c) of said notification. The appellant again filed the refund claim on 22.12.2016 for Rs.2,61,412/- which after issuance of SCN dated 10.01.2017, was decided vide OIO No. R/96/2016



dated 14.02.2017 denying refund on the basis of non fulfillment of condition under para 1(c) of notification supra. Present appeal is filed against said OIO dated 14.02.2017 contesting interaila the following:

- The issue of wrong authority of filing refund cannot be considered as noncompliance of notification.
- They are entitled to benefit under two different heads of notification i.e. they can claim under which higher benefit is available.
- The notification is to be construed reasonably and rationally and not in a manner which deprives benefits.
- The Assistant Commissioner relying on OIA had power to grant benefit instead of denying the same.
- The OIO is passed without going into merit of the case.
- Entitlement of full refund is not under para 3, it has to be granted under para 2 of said notification.
- The notification does not preclude the exporter from availing the option under para 2 or para 3. They were entitled for both the option.
- Appellant was entitled for refund of export of goods as i.e. the underlying intention. Therefore entire refund for the quarter needs to be sanctioned in terms of para 3 or para 2 as would be applicable.

PERSONAL HEARING:

Personal hearing was given to the appellant on 09.01.2018 wherein Ms. Yashashvi Jain, advocate appeared on behalf of the appellant and retreated the ground of appeal.

DISCUSSION AND FINDING:

I have carefully gone through the record of the case, appeal memorandum, submissions made by the appellant during personal hearing. The issue to be decided in present appeal is with regard to admissibility of refund claim in respect of para 1(c) of notification no.41/2012-ST dated 29.06.2012 which is mainly contested by the appellant as another issue related to admissibility of rebate on services utilized beyond the place of removal is not a plea under this appeal.

I find that the appellant authority vide OIA No. BHV-EXCUS-000-APP-213-15-16 dated 29.11.2016 had rejected the refund claim on the ground of non compliance of para 1(c) Notification No.41/2012-ST. The only remedy available to appellant to file appeal against the said OIA. Whereas the appellant filed the refund claim to refund sanctioning authority which is legally not allowed. On this ground alone, the appeal is liable for rejection.

Further, I find that so far as the admissibility of refund claim in respect of para 1(c) of notification supra is concern, the finding of lower authority at par with that observed under OIA No. BHV-EXCUS-000-APP-213-15-16 dated 29.11.2016. The grounds of the present appeal i.e. claim against wrong authority cannot be a noncompliance, rebate can be claimed under two different

heads of notification, the notification does not preclude them from availing option under para 2 or 3, they are entitle for both options, entire rebate for the quarter needs to sanctioned without going into para 2 or 3 etc. has already been dealt with in earlier appeal Order dated 29.11.2016 and it was hold that the claim does not fulfill the condition of para 1(c) of notification no.41/2012-ST dated 29.06.2012. The case is of the nature wherein the appellant expected the first appellant authority to repeatedly screen out same issue and to pass his findings. In fact the appellant would have refrained from pleading on the ground of their entitlement in respect of para 1(c) of notification no.41/2012-ST dated 29.06.2012 which was already a part of earlier order dated 29.11.2016 of the undersigned authority. The material fact attributing their entitlement in respect of para 1(c) of notification supra which existed as on date of filling original rebate application dated 22.07.2014 has remained unchanged even in their fresh application dated 22.12.2016. As such it is needless to add further in the comments which were observed in said order dated 29.11.2016. I therefore, hold that the claim does not fulfill the condition of para 1(c) of notification no.41/2012-ST dated 29.06.2012 and as such, I do not interfere the impugned order.

ORDER

I reject the appeal and uphold the impugned order.



(Suresh Nandanwar)
Commissioner
Central Tax Audit,
Ahmedabad.

F.No.V2/53/BVR/2017

Date:18.01.2018.

To,
M/s. Ultratech Cement Limited,
P.O., Kovaya, Tal. Rajula,
Dist. Amerli.

Copy to :

1. The Chief Commissioner, CGST, Ahmedabad.
2. The Commissioner, CGST, Bhavnagar.
3. The Assistant Commissioner, CGST, Division, Bhavnagar.
4. The Assistant Commissioner(system), CGST, Bhavnagar.
5. The Superintendent, CGST, Amerli Range, Bhavnagar.
6. Guard file.